



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15-नवम्बर 21, 2003 (कार्तिक 24 1925)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15--NOV. 21, 2003 (KARTIKA 24, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० आरएस/845/स्था०(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जी० एस० सचदेव, प्रधान मुख्य संपादक, 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर एस/1/2003/36-कार्मिक--राज्य सभा के सभापति ने श्री आर० के० सिंह (भा०डा० सं०-71), डाक विभाग में उप महानिदेशक को 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के रैंक में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस/951/स्था०(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर (श्रीमती) रमेश कौर, प्रधान निजी सचिव, 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस/1113/स्था०(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री धर्म चन्द सोनी, उप निदेशक (सुरक्षा), 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए-19(423)/83-प्रशा० II--आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 13019/220/पी एफ-आई ई एस,

दिनांक 25 सितम्बर 2003 के अनुसरण में राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-III अधिकारी एवं योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री बी० मिश्रा का त्यागपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं। नदनुसार, श्री मिश्रा उक्त दिनांक से सरकारी कर्मचारी अथवा भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी नहीं रहे।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए०-20/जी०-बी०/147—श्री संदीप जैन, सहायक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जिनकी सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग को सौंपे गई हैं को भारत निर्वाचन आयोग में दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए रु० 7,450-225-11,500 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर एतद्द्वारा अधीक्षक (विधिक) नियुक्त किया जाता है।

उनके वेतन तथा भत्ते कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित का० झा० सं० 2/29/91-स्था० (वेतन-II) दिनांक 5 जनवरी, 1994 के अनुसार नियमित किए जाएंगे।

नरेन्द्र नाथ बूटोलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

सं० ए० 32013/6/2002-प्रशा०-1(वि०वि०)—विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री एन० के० अम्बष्ट को 22 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से उक्त विभाग में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड VI) श्री एन० के० अम्बष्ट को 23 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नब्बे दिनों की अवधि के लिए उप विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर कार्य करने सहेतु हर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० दास, उप सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० 14034/6/6003-रा० भा० (प्रशि०)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई अनुशांसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा) श्री आर० एम० श्रीनिवासन को उसी कार्यालय में उप निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) के पद पर रुपए 10,000-325-15,200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003 (पूर्वाह्न) से, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री आर० एम० श्रीनिवासन को ए०सी०सी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ पहले ही रुपए 10,000-335-15,200 के वेतनमान में, दिनांक 9-8-1999 से दिया जा चुका है।

एस० रमणन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० 14012/5/2003-अ० भा० से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

| क्र० सं० | नाम | वैच | स्थायीकरण की तिथि |
|----------|---------------------------|------|-------------------|
| 1. | श्री बैभव गालरिया | 1998 | 07-09-2000 |
| 2. | श्री टी० खिकांत | 1998 | -वही- |
| 3. | श्री सुबीर कुमार | 1998 | -वही- |
| 4. | श्री भवानी सिंह डेथा | 1999 | 20-09-2001 |
| 5. | श्री विकास सीतारामजी भाने | 1999 | -वही- |
| 6. | श्रीमती सुधा सिन्हा | 1999 | -वही- |
| 7. | कुमारी मंजू राजपाल | 2000 | 04-09-2002 |
| 8. | श्री देवाशीष प्रूस्ती | 2000 | -वही- |

अकील अहमद, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० 13017/81/97-अ०भा०से० (I)—भारत के राजपत्र के भाग I खंड 2 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं० 13017/81/97-अ०भा०से० (I) दिनांक 23-6-2003 के

अधिक्रमण के केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के आधार पर तथा पंजाब सरकार की सहमति से श्री सुरजीत कौर संधू, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर०आर०: 78) को तत्काल प्रभाव से पंजाब से उत्तर प्रदेश संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन (रिपेट्रीएशन) का आदेश देती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/30/97 अ०भा०से०(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर-त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ की सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के अधिकारी श्री विवेक कुमार देवांगन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर०आर०: 93) की दिनांक 11-03-2003 से 31-12-2003 तक, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/32/2000-अ०भा०से०(I)—भारत के राजपत्र के भाग I खंड 2 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना सं० 13017/32/2000-अ०भा०से०(I) दिनांक 05-11-2001 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश पर, एतद्द्वारा, श्री पंकज द्विवेदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए०पी०: 75) को तत्काल छत्तीसगढ़ संवर्ग से आंध्र प्रदेश संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन (रिपेट्रीएशन) का आदेश देती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/33/2001-अ०भा०से०(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और अगमूट संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रुम में गृह मंत्रालय की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के प्राधिकारी श्री श्रोतम दई, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर०: 87) की दिनांक 10-10-2003 के बाद और एक वर्ष के लिए, अगमूट (अरुणाचल प्रदेश) संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2003

सं० 28/पी० बी०/2003—अधिबर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के निजी सचिव श्री एम० एल० तनेजा

30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

भूपेन्द्र कुमार
प्रशासनिक अधिकारी (पी० बी०)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं० ए० 19012/9/2003-प्रशा०-2—आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 14-10-2003 के आदेश संख्या 11016/1/2001-आईईएस के तहत श्री अमिर्तेन्दु पालित की भारतीय आर्थिक सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में 14 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से तथा अगले आदेशों तक उप आर्थिक सहायक नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए० 19012/10/2003 -प्रशा०-2—आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 14-10-2003 के आदेश संख्या 11016/1/2001-आईईएस के तहत सुश्री अन्ना राय की भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में 14 अक्टूबर, 2003 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक संयुक्त निदेशक नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12011/3/2002-प्रशा०-II—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-10-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं 21/48/97-सीएस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री एच०एल० बोकोलिया को उसी विभाग में उनके लिए बैयक्तिक पदोन्नति के रूप में उनके अनुभाग अधिकारी के पद का ग्रेड अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 17-10-2003 के (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक पूर्णव्यावर्धन अक्षरों पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति इस विषय पर केन्द्रीय प्रशासनिक समयाधिकरण की मुख्य बैठ, दिल्ली में ललित अमृतलाल तथा अन्य द्वारा दायर अर्जी एम०ए० सं० 640/1998, श्री सी०डी०

भाटिया तथा अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं० 8911/97 तथा श्री एम० श्रीनिवास और एक अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं० 146/98 के फैसले पर निर्भर करेगी।

3. उन्नत पद पर नियुक्ति से अधिकारी की अवर सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति या श्रेणी में वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

4. जैसे ही उपर्युक्त पद का पदधारी उच्चतर श्रेणी में वास्तविक रिक्ति हेतु अपनी प्रोन्नति या सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण इस पद को खाली करेगा, उन्नत पद स्वतः ही अनुभाग अधिकारी के अपने मूल स्तर पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12011/21/2002-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, श्री एस० एस० बाबनगरे को 10,000-325-15200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 9 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग तथा बीमा) (श्री आनंदराव अडसूल) के अपर निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस० एस० बाबनगरे की नियुक्ति, यदि अन्य कारणों से पहले समाप्त नहीं की जाती है, तो वर्तमान वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग तथा बीमा) के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगी।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

(अवकाश तथा नियुक्ति)

सं० 1/8/2003-एफ० बी०-I—राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत, बंगलादेश, श्रीलंका और भूटान के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत श्री बी० पी० मिश्र को उनके कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कोष के मुख्यालय में राजदूत के रैंक में भारत सरकार के प्रमुख रेजिडेंट प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हैं।

आर० वैनर्जी, संयुक्त सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12023/1/97-प्रशा०-II—इस विभाग की सम-मुख्य अधिकारी सूचना दिनांक 3 नवम्बर, 2000 तथा दिनांक 20 मार्च, 2003 के अनुक्रमण में, राष्ट्रपति इस विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में श्री सी० एम० वर्मा को उप निदेशक के पद पर (विगत में वरिष्ठ विश्लेषक) प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30 नवम्बर 2004 तक और आगे बढ़ाते हैं।

एम० एल० नेगी, अवर सचिव

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक □ सितम्बर 2003

सं० पी एफ जी/810/2003-प्रशा०-I—व्यय विभाग के कार्यालय आदेश सं० ए-32013/1/2002-प्रशा०-I दिनांक 14 अगस्त 2003 के अनुसरण में भारतीय लागत लेखा सेवा के उपनिदेशक (लागत) के ग्रेड में उनकी प्रोन्नति होने के परिणामस्वरूप भारतीय लागत लेखा सेवा (आई० सी० ए० एस०) अधिकारी श्री अमरदीप सिंह चौधरी ने 18 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से कंपनी कार्य विभाग में उप निदेशक (लागत) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रविन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्टूबर 2003

सं० पीएफजी/861/2003-प्रशा०-I—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं० 12015/8/2003-आईएसएस दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के अनुसरण में भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आई एस एस) में वरिष्ठ सहायमान (एसटीएस) में प्रोन्नति होने पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी श्री मोती राम रामचन्दानी ने 30 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से कंपनी कार्य विभाग में उपनिदेशक (अनुसंधान) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

दिनांक 22 अक्टूबर 2003

सं० पीएफजी/738/97-प्रशा०-I—कंपनी कार्य विभाग के कार्यालय आदेश सं० ए-32011/3/2001-प्रशा० II दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 के अनुसरण में भारतीय कंपनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (विधि शाखा) के 12000-375-16500/- रा.ए के वेतनमान में उनकी प्रोन्नति होने के परिणामस्वरूप श्री ए० के० चतुर्वेदी ने 30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से कंपनी कार्य विभाग में संयुक्त निदेशक (विधि) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० 22/2003-(ए-19011/15/2003-ई-I)—राष्ट्रपति, द्वारा श्री ए० के० के० भीणा, आई० ए० एस० (ओ आर : 93) को 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 2-5-2005 तक अथवा अगले आदेशों तक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एच० के० तुली, उप सचिव

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

सं० ए-22012/2/2003-आ० म० (प्रशा०-1)— भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-3 पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने पर श्री डी० सतीश, भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी ने दिनांक 27-10-2003 (पूर्वाह्न) से इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (भा० सा० से० के वरिष्ठ समयमान पद) (वेतनमान रुपए 10,000-325-15,200) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी० एस० नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

सं० 11(36)/2002-स्थापना (.)—मंत्रालय के दिनांक 4-8-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निम्नलिखित ग्रेड-सी आशुलिपिकों की इसी सेवा और संवर्ग में निजी सचिव के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1-10-2003 से 31-12-2003 अथवा आगे आदेश होने तक अथवा नियमित निजी सचिवों के पदभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं :—

क्र० सं० अधिकारी का नाम

1. श्रीमती सुरिन्द्र कौर
2. श्री एम० एस० गुजाना
3. श्री आर० के० महतोत्रा
4. श्री एच० सी० भट्ट

2. उक्त अधिकारियों की तदर्थ आधार पर की गई इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनका वरिष्ठता अथवा नियमित पदोन्नति का कोई दावा नहीं होगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01-10-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5(10)/2003-सी एस-II के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० ए-12031/2/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्रीमती माया मिन्हा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-81) को केन्द्रीय सचि-

वालय सेवा की श्रीमती पी० स्वामीनाथन के स्थान पर कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में 18,400-22,400 रुपए के वेतनमान में नियुक्त सचिव के बराबर वित्तीय सलाहकार के रूप में सूचीकरण की शर्त में डील देकर 05-09-2003 (पूर्वा०) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० ए-19011/21/82—एस० आर० ए० अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालय, पुणे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में सहायक निदेशक (एस० एण्ड आर०) के पद पर कार्यरत सामान्य केन्द्रीय सेवा के समूह "क" अधिकारी श्री डी० पी० सिंह का दिनांक 27-9-2003 को देहावसान हो गया।

एल० संथानम, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 सितम्बर 2003

सं० ए-65011/76/2002-पी. II (.)—राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री नरेश कुमार को दिनांक 22-9-2003 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,500-10,500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर 6 माह की अवधि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक सम्पादक (हिन्दी प्रकाशन) के पद पर महर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं० ए-32012/1/2001-पी-II (.)—राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को इस मंत्रालय में, तदर्थ आधार पर, 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में, अनुभाग अधिकारी के रूप में 23 अक्टूबर, 2003 से छः महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

- (i) श्री जे० के० चक्रवर्ती
- (ii) श्री बी० एस० नान्द्रा

2. इस तदर्थ नियुक्ति के परिणामस्वरूप उक्त अधिकारी को नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी समय इस तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने अथवा जिस पद पर अधिकारी की प्रोन्नति हुई थी उसी पद पर उन्हें प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

जफरुल इस्लाम, अवसर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अक्टूबर 2003

सं० 17013/16/99-भा० व० सेवा-II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 25 फरवरी, 2003 को वर्ष 1999, 2000, 2001, 2002 एवं 2003 की चयन सूची को अनुमोदित किया है जिसमें भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 1 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2002 एवं 1 जनवरी, 2003 तक के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों को भरने के लिए चयन समिति की 11 सितम्बर, 2003 को हुई बैठक में तैयार की गई चयन सूची में राजस्थान राज्य वन सेवा के निम्नलिखित चौदह अधिकारियों के नाम शामिल हैं :—

वर्ष 1999 की चयन सूची :

| क्रम सं० | नाम | जन्म तिथि |
|----------|----------------|------------|
| | सर्व/श्री | |
| 1. | के एल बडगुजर | 25-12-1950 |
| 2. | बेनी राम | 05-03-1947 |
| 3.* | दीप चन्द बैरवा | 30-10-1951 |

*क्रम सं० 3 के नाम को सूची में अस्थायी रूप से शामिल न किया गया है जो उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा होने की शर्त पर निर्भर है।

वर्ष 2000 की चयन सूची :

| क्रम सं० | नाम सर्व/श्री | जन्म तिथि |
|----------|-------------------|------------|
| 1. क* | दीप चन्द बैरवा | 30-10-1951 |
| 2. | सुभाष चन्द शर्मा | 15-08-1951 |
| 3. | जी० पी० डी० व्यास | 21-03-1950 |
| 4. | वी० एन० शर्मा | 31-07-1950 |

*क्रम सं० 1क के नाम पर समिति द्वारा भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम

5(4) के द्वितीय परंतुक के अन्तर्गत विचार किया गया है और इसे सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा होने की शर्त पर निर्भर है :—

वर्ष 2001 की चयन सूची:

| क्रम सं० | नाम सर्व/श्री | जन्म तिथि |
|----------|-----------------|------------|
| 1. क* | दीप चन्द बैरवा | 30-10-1951 |
| 2. | सुनयन शर्मा | 03-03-1950 |
| 3. | एन० सी० बकोलिया | 01-09-1949 |
| 4. | ओ० पी० शर्मा | 03-07-1942 |

* क्रम सं० 1-क के नाम पर समिति द्वारा भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अन्तर्गत विचार किया गया है और इसे सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा होने की शर्त पर निर्भर है।

वर्ष 2002 की चयन सूची:

| क्रम सं० | नाम सर्व/श्री | जन्म-तिथि |
|----------|----------------|------------|
| 1. | वी० के० सलवान | 20-11-1948 |
| 1.क* | दीप चन्द बैरवा | 30-10-1951 |
| 2. | के० सी० शर्मा | 31-05-1951 |
| 3. | आर० एस० शेखावत | 30-10-1958 |

* क्रम सं० 1-क के नाम पर समिति द्वारा भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अन्तर्गत विचार किया गया है और इसे सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा होने की शर्त पर निर्भर है।

वर्ष 2003 की चयन सूची :

| क्रम सं० | नाम सर्व/श्री | जन्म-तिथि |
|----------|-----------------|------------|
| 1. क* | दीप चन्द बैरवा | 30-10-1951 |
| 1. | आई० ए० मुगल | 30-11-1955 |
| 2. | जी० पी० सक्सेना | 17-04-1951 |

*क्रम संख्या 1—क के नाम पर समिति द्वारा भारतीय वन सेवा (पदन्ति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1986 के विनियम 5(4) के द्वितीय परंतुक के अन्तर्गत विचार किया गया है और इसे सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है जो राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के पूरा होने की शर्त पर निर्भर है।

अशोक कुमार, अवसर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12025/11/2003-सी० एच० एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० हीरा लाल को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 2 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकिरण-निदान) के रूप में तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12025/406/91-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० विजय यशवंत पराडकर को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2,200-4,000 (पूर्व संशोधित) रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० विजय यशवंत पराडकर को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवसर सचिव

सं० ए० 12025/90/94-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० (श्रीमती) जोती जनार्त मूर्ति को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2,200-4,000 (पूर्व संशोधित) रुपये के वेतनमान में अस्थायी

आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० (श्रीमती) जोती जनार्त मूर्ति को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवसर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12025/81/99-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० शालिनी अग्रवाल को 12-7-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० शालिनी अग्रवाल को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवसर सचिव

दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० ए-38011/1/2003-सी० एच० एस०-I—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन० एफ० एस० जी०) के पदधारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित संवर्ग के डा० आर० एन० पण्डा ने अधिवर्षिता की आयु के हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 जून 2003 (अपराह्न) को कार्यभार छोड़ दिया।

जगदीश कुमार, अवसर सचिव

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2003

सं० ए-12025/2/2003-स्था-III—राष्ट्रपति, परिवार कल्याण विभाग में श्री आर० सी० कक्कर को डिपो अधिकारी पद पर 6,500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरित करके 8 अक्टूबर 2003 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

महेश कुमार, अवसर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

सं० 19011/373/2003-स्था० V--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में कृषि आयुक्त के पद पर कार्यरत डा० सी० आर० हाजरा की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 21-3-2003 में बढ़ाकर 27-6-2003 (अपराह्न) तक करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2003

सं० 4-10/2001-डी-II (भाषा)--राष्ट्रपति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली के सहायक निदेशक (विषय) श्री धीरेन्द्र राय की पदोन्नति करते हुए उसी कार्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा अगले आदेशों तक उप निदेशक (विषय) जी०सी०एस० ग्रुप, "क" राजपत्रित के पद पर रु० 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

हेमचंद्र, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

सं० 13028/1/2003-एससीडी-6--जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रत्यावर्तन के पश्चात् श्री पी० एल० यादव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 18-8-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहायक निदेशक के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

दिलीप सिंह, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं०-16011/2/2002-एस० सी० डी०-4--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ

डी सी) के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त निगम के निदेशक मंडल में निम्न-लिखित को पदेन निदेशकों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं:-

1. प्रबंध निदेशक,

कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि०,

9वां तथा 10वां तल, विश्वेश्वरैया मिनि टावर,

डा० अम्बेडकर वीधी,

बंगलूर-560001।

2. प्रबंध निदेशक,

गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम लि०,

डा०जीवराज मेहता भवन,

ब्लॉक नं० 10, दूसरा तल, सेक्टर-10,

पुराना सचिवालय, गांधी नगर-382010।

3. प्रबंध निदेशक,

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,

राजीव गांधी भवन,

35, श्यामला हिल्स,

भोपाल-462002।

4. प्रबंध निदेशक,

झारखंड अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम लि०, रांची।

हसीब अहमद, निदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं० 2-3/2000-पशा०--राष्ट्रपति सहर्ष अनुभाग अधिकारी श्रेणी की संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2001 के परिणाम आने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संवर्ग की सहायक, श्रीमती श्रीकला पी० धेणुगोपाल को 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में डाक विभाग संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 29-9-2003 से नियुक्त करते हैं।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक(प्रशासन)

सं० 2-3/2002-प्रशा०—डाक विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के तौर पर कार्यरत, श्री अणिम कुमार राय को 29-09-2003 (पूर्वाह्न) से इसी संवर्ग में सहायक के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा०)

दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं० 2-3/2002-प्रशा०—राष्ट्रपति, सहर्ष अनुभाग अधिकारी श्रेणी की संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2001 के परिणाम आने पर, रक्षा मंत्रालय संवर्ग के सहायक, श्री रंजीत कुमार सिन्हा को 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में डाक विभाग संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में 15-10-2003 से नियुक्त करते हैं।

सं० ई आर बी-1/2002/2/37—मुश्री संगीता शर्मा, अनुसंधान अधिकारी, आर्थिक यूनिट, रेलवे बोर्ड (ग्रेड 8,000-13,500/- रु०) को 7-10-2003 से 10,000-15,200/- रु० के ग्रेड में नियमित आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी आर्थिक यूनिट, रेलवे बोर्ड के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया है।

आर० आर० भंडारी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं

पदेन अपर सचिव

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा०)

दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० 2-3/2002-प्रशा०—डाक विभाग के संवर्ग में तदर्थ अनुभाग अधिकारी श्री भारत भूषण को उनके सहायक के मूल पद पर 15-10-2003 (पूर्वाह्न) से उसी संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

सं० ई आर बी-1/2003/2/63—श्री श्याम कुमार, भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, सलाहकार (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड को 8-10-2003 के अपराह्न से 24050-26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (सिविल इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा०)

आर० आर० भंडारी, सचिव, रेलवे बोर्ड

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए०-19011/3/2003-स्था०-1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 सितम्बर 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/26/2003-ई० ओ० (एम० एम०-1) के अनुसरण में सुश्री रुचिका सी० गोविल, आई आर एस (आई टी : 90) ने 09-10-2003 के (पूर्वाह्न) से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव के पद का कार्य-भार ग्रहण कर लिया है।

सं० ए-12028/2/003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री कुमार राकेश सिन्हा, जो कि किसी संगठित सेवा से नहीं है, को 6500-10,500/- रु० के वेतनमान में दिनांक 1-8-2003 (पूर्वाह्न) से सह-अवसानी आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) के प्रथम निजी सहायक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कृष्ण चंद गुप्ता, अवर सचिव

मुद्रेश कुमार शाही, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं० 12025/3/98-एफ(ए)— राष्ट्रपति, श्री सी० जे० पालोस को फिल्म प्रभाग में 14,300-400-18,300 रु० के वेतनमान में दिनांक 28 अगस्त, 2003 (पूर्वाह्न) से 6 महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या श्री वंकिम कपाडिया के निर्लबन के निरस्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो, संयुक्त मुख्य निर्माता के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से संयुक्त मुख्य निर्माता के पद पर नियमितीकरण या बरिष्ठता हेतु कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

के० एम० शशिधरण, डेस्क अधिकारी

(विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

सं० ए-12011/3/98-प्रशा०-1—निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय श्री तुषार रंजन कर्नकार की सहायक उत्पादन प्रबंधक (बाह्य प्रचार) के रूप में 29-9-2003 के पूर्वाह्न से 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में अगले आदेश होने तक अस्थाई क्षमता में नियुक्ति करते हैं।

2. वे 29-9-2003 से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा की अवधि की नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक कुमार सक्सेना, उप निदेशक (प्रशासन)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st October 2003

No. RS/845/Estt. (P)—On attaining the age of superannuation, Shri G.S. Sachdev, Principal Chief Editor retired from service with effect from the afternoon of 31st October 2003.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/1/2003/36-Perl—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R. K. Singh (IPoS-74), Deputy Director General in Department of Posts as Officer on Special Duty in the rank of Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis, for a period of one year, with effect from the afternoon of 31st October 2003, until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/951/Estt. (P)—On attaining the age of superannuation, Smt. Ramesh Kaur, Principal Private Secretary retired from service with effect from the afternoon of 31st October 2003.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/1113/Estt. (P)—On attaining the age of superannuation, Shri Dharam Chand Soni, Deputy Director (Security) retired from service with effect from the afternoon of 31st October 2003.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st October 2003

No. A. 19(423)/83-Admn. II—In pursuance of Department of Economic Affairs Office Memorandum No. 13019/220/PF-IES, dated 25th September 2003, the President is pleased to accept the resignation of Shri B. Mishra, a Grade-III Officer of Indian Economic Service and Senior Research Officer, Planning Commission, w.e.f. 25th September 2003 (FN). Accordingly, Shri Mishra ceases to be a Government Servant or an Officer of IES w.e.f. that date.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 29th October 2003

No. A. 20/G-B/147/6059—Shri Sandeep Jain, Assistant of the M/o Road Transport and Highways whose services have been placed at the disposal of the Election Commission

of India is hereby appointed Superintendent (Legal) in the Election Commission of India in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- on deputation basis w.e.f. 21.10.2003, initially for a period of one year.

His pay and allowances will be regulated in terms of Deptt. of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II), dated 05.01.1994 as amended from time to time.

NARENDRA N. BUTOLIA
Under Secy.MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 22nd October 2003

No. A-32013/06/2002-Admn. I (L.D.)—Shri N. K. Ambastha officiating as Deputy Legislative Counsel (Grade- III of Indian Legal Service) purely on *ad-hoc* basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is reverted to his substantive post of Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the said Department with effect from the forenoon of 22nd October 2003.

2. The President is pleased to appoint Shri N. K. Ambastha, Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) purely on *ad-hoc* basis in the said Department for a period of ninety days with effect from the forenoon of 23rd October 2003 and until further orders.

M. DAS, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 30th October 2003

No. 14034/6/2003-OL (Trg.)—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri R. M. Srinivasan, Assistant Director (Language), Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Teaching Scheme) (Pay scale Rs. 10,000-325-12,000) in the same office, on promotion, with effect from the forenoon of 23rd October 2003.

2. Shri R. M. Srinivasan has already been granted second financial upgradation in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 09.08.1999 under A.C.P. Scheme.

S. RAMANAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th October 2003

No. 14012/5/2003-AIS. III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Rajasthan with effect from the dates shown against them :—

| Sl. No. | Name | Batch | Date of Confirmation |
|---------|-----------------------|-------|----------------------|
| | S/Shri | | |
| 1. | Vaibhav Galriya | 1998 | 7.9.2000 |
| 2. | T. Ravikanth | 1998 | 7.9.2000 |
| 3. | Subir Kumar | 1998 | 7.9.2000 |
| 4. | Bhawani Singh Detha | 1999 | 20.9.2001 |
| 5. | Vikas Sitaramji Bhale | 1999 | 20.9.2001 |
| 6. | Smt. Mugdha Sinha | 1999 | 20.9.2001 |
| 7. | Kum. Manju Rajpal | 2000 | 4.9.2002 |
| 8. | Debasish Prusty | 2000 | 4.9.2002 |

AQEEL AHMED, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd November 2003

No. 13017/18/97-AIS (I).—In supersession of this Deptt. Notification No. 13017/18/97 AIS(I) dated 23.6.2003 published in the Gazette of India Part I Section 2, the Central Govt. on the basis of the recommendation of the Govt. of Uttar Pradesh and with the concurrence of the Govt. of Punjab, hereby order premature repatriation of Smt. Surjeet Kaur Sandhu, IAS (RR : 78) from Punjab to Uttar Pradesh with immediate effect.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/30/97-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Chhattisgarh, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of Shri Vivek Kumar Dewangan, IAS (RR : 93), from the IAS Cadre of Manipur-Tripura, to the IAS cadre of Chhattisgarh for a further period from 11.3.2003 to 31.12.2003.

K. K. SHARMA Desk Officer

No. 13017/32/2000-AIS(I).—In supersession of this Deptt. Notification No. 13017/32/2000-AIS(I) dated 5.11.2001 published in the Gazette of India Part I Section

2, the Central Govt. on the basis of the recommendation of the Govt. of Andhra Pradesh, hereby order premature repatriation of Shri Pankaj Dwivedi, IAS (RR-Ap : 75) from Chhattisgarh to Andhra Pradesh immediately.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/33/2001-AIS(I).—Under Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Ministry of Home Affairs as the cadre controlling Authority of AGMUT, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of Shri Otem Dai, IAS (RR : 87) from the IAS Cadre of Tamil Nadu to the IAS Cadre of AGMUT (Arunchal Pradesh) for a further period of one year beyond 10.10.2003.

K. K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd October 2003

No. 28/PB/2003—On attaining the age of superannuation, Shri M L Taneja, Private Secretary in this Ministry retired from Government Service in the afternoon of 30th September 2003.

BHUPENDER KUMAR
Administrative Officer (PB)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 21st October 2003

No. A. 19012/9/2003-Admn. II.—Consequent upon his promotion to Junior Administrative Grade of Indian Economic Service *Vide* Department of Economic Affairs Order No. 11016/1/2001-IES dated 14.10.2003, the President is pleased to appoint Shri Amitendu Palit, as Deputy Economic Adviser in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance w.e.f. the afternoon of 14th October, 2003 and until further orders.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A. 19012/10/2003-Admn. II.—Consequent upon her promotion to Junior Administrative Grade of Indian Economic Service *Vide* Department of Economic Affairs Order No. 11016/1/2001-IES dated 14.10.2003, the President is pleased to appoint Ms. Anna Roy as Joint Director in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance w.e.f. the afternoon of 14th October, 2003 and until further orders.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 28th October 2003

No. A. 12011/3/2002-Admn. II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 21/48/97-CS. I dated 17.10.2003, the President is pleased to appoint Shri H. L. Bokolia, Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Under Secretary purely on *ad-hoc* basis in the same Department in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 by temporarily upgrading his post of Section Officer as a measure personal to him, with effect from the forenoon of 17.10.2003 and until further orders.

2. The above appointment will be subject to the outcome of the application MA. No. 640/1998 filed by Amrit Lal and others, OA No. 8911/97 filed by Shri C.D. Bhatia and others and OA No. 146/98 filed by Shri M. Sreenivas and another pending in the CAT Principal Bench, New Delhi on the subject.

3. The appointment against the upgraded post will not entitle the officer to any claim for regular appointment as Under Secretary or Seniority in the grade.

4. The upgraded post will automatically revert to its original level of Section Officer as and when the incumbent of such post vacate it on his promotion against actual vacancy in the higher grade or on his retirement, resignation etc.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 29th October 2003

No. A. 12011/21/2002-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Babanagre as Additional Private Secretary to Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri Anandrao Vitthoba Adsul) w.e.f. the forenoon of 9th April 2003 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200.

2. The appointment of Shri S.S. Babanagre will be on co-terminus basis with the tenure of the present Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) unless terminated otherwise earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 15th October 2003

(Leave and appointment)

No. 1/8/2003-FB-I.—The President is pleased to designate Shri B.P. Misra as the Principal Resident Representative of India in the International Monetary Fund with the rank of Ambassador, during his tenure as Executive Director for India, Bangladesh, Shri Lanka and Bhutan on the Board of International Monetary Fund, at the Fund's Headquarters, in the United States of America.

R. BANNERJI, Joint Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 31st October 2003

No. A-12023/1/97-Ad. II.—In continuation of this Department's Notification of even no. dated 3rd November 2000 and dated 20th March 2003, the President is pleased to extend the deputation period of Shri C.M. Verma in the post of Deputy Director (formerly Senior Analyst) in the Staff Inspection Unit of this Department upto 30th November 2004.

S. L. NEGI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the September 2003

No. PFG/860/2003-Ad. I.—Consequent upon his promotion to the Grade of Deputy Director (Cost) in Indian Cost Accounts Service in pursuance of Department of Expenditure's Office Order No. A-32013/1/2002-Ad. I dated 14th August 2003, Shri Amardeep Singh Chowdhary, an Officer of the Indian Cost Accounts Service (ICAS) has assumed the charge of the post of Deputy Director (Cost) in the Department of Company Affairs w.e.f. the forenoon of 18th September 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 10th October 2003

No. PFG/861/2003-Ad. I.—Consequent upon his promotion to the Senior Time Scale (STS) in the Indian Statistical Service (ISS) in pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. 12015/8/2003-ISS dated 26th September 2003, Shri Moti Ram Ramchandani, an Officer of the Indian Statistical Service has assumed the charge of the post of Deputy Director (Research) in the Department of Company Affairs w.e.f. the forenoon of 30th September 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

The 22nd October 2003

No. PFG/738/97-Ad. I.—Consequent upon his promotion to the Junior Administrative Grade (Legal Branch) of the Indian Company Law Service in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in pursuance of Department of Company Affairs Office Order No. A-32011/3/2001-Ad. II dated 17th September 2003, Shri A. K. Chaturvedi has assumed the charge of the post of Joint Director (Legal) in the Department of Company Affairs w.e.f. the afternoon of 30th September 2003.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 3rd November 2003

No. 22/2003 (A-19011/15/2003-E. I)—The President is pleased to appoint Shri A.K.K.Meena. IAS (OR : 93) as Deputy Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the afternoon of 31st October 2003 for the balance period of his tenure i.e. upto 02.05.2005 or until further orders.

S. K. TULI, Dy. Secy.

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 28th October 2003

No. A-22012/2/2003-Ec. Ad. (Admn. I)—On his promotion to grade III of Indian Statistical Service on *ad hoc* basis, Shri D. Satish, a Junior Time Scale (JTS) officer of the Indian Statistical Service, has assumed the charge of the post of Deputy Director (STS level post) (pay scale of Rs. 10,000-325-15,200) on *ad hoc* basis in this Office, with effect from the forenoon of 27th October 2003, until further orders.

G. S. NEGI, Addl. Economic Adviser

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 9th October 2003

No. 11(36)/2002-Estt.(.)—In continuation of the Ministry's Notification of even number dated 4.8.2003, the President is pleased to extend the term of *ad-hoc* appointment of the following Grade 'C' Stenographers in the CSSS Cadre of the Ministry of Steel as Private Secretaries in the same service and cadre w.e.f. 1.10.2003 to 31.12.2003 or till further orders or till regular Private Secretaries join whichever is the earliest :—

| Sr. No. | Name of the Official |
|---------|----------------------|
| 1. | Smt. Surinder Kaur |
| 2. | Shri M. S. Punjani |
| 3. | Shri R. K. Malhotra |
| 4. | Shri H. C. Bhatt |

The above officers will not have any claim for seniority or regular promotion consequent on their *ad-hoc* appointments.

3. This issue with the approval of DoPT OM No. 5(10)/2003-CS. II dated 1.10.2003.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 1st October 2003

No. A-12031/2/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Maya Sinha, IRS (IT : 81) as Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) under the Ministry of Agro and Rural Industries, at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400—22,400, in relaxation of the condition of empanelment, for a period of five years with effect from 5.9.2003(F/N) or until further orders, whichever is earlier, vice Smt. P. Swaminathan, CSS.

H. R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPTT. OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 17 October 2003

No. A-19011/21/82-SRA.—Sh. D. P. Singh, an officer of Group 'A', General Central Service holding the post of Assistant Director (S&R) at the Save Grain Campaign Office, Pune in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, expired on 27.9.2003.

L. SANTHANAM, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 22nd September 2003

No. A-65011/76/2002-P. II. (.)—The President is pleased to appoint Shri Naresh Kumar, Senior Hindi Translator of the Ministry of Environment and Forests as Assistant Editor (Hindi Publication) in the scale of Rs. 6500—10500 in the Ministry of Environment and Forests on *adhoc* deputation basis for a period of 6 months w.e.f. 22.9.2003 (forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

The 23rd October 2003

No. A-32012/1/2001-P. II. (.)—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS cadre of the Ministry of Environment and Forests as Section Officer in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in this Ministry on *ad-hoc* basis with effect from 23rd October 2003 for a period of six months or until the regular incumbents become available, whichever event takes place earlier :—

(i) Shri J. K. Chakravarty

(ii) Shri B. S. Nandhra

2. The *ad-hoc* appointment will not confer any right upon the above officers for regular promotion. The

Government reserves the right to cancel at any time the *ad-hoc* appointment and to revert the officers to the post from which they were promoted.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 13th October 2003

No. 17013/16/99-IFS. II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 25th February 2003 has approved the Select Lists for the years 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003 containing the names of following Fourteen members of State Forest Service Officers of Rajasthan, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 11th September 2003 for filling up promotion vacancies in the Rajasthan cadre of the Indian Forest Service as on 1st January 1999, 1st January 2000, 1st January 2001, 1st January 2002 & 1st January 2003 :

Select List of 1999 :

| S. No. | Name | Date of Birth |
|--------|-------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | K. L. Badgujar | 25.12.1950 |
| 2. | Beni Ram | 05.03.1947 |
| *3. | Deep Chand Bairwa | 30.10.1951 |

*The name at Sl. No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him.

Select List of 2000 :

| S. No. | Name | Date of Birth |
|--------|----------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1.A* | Deep Chand Bairwa | 30.10.1951 |
| 2. | Subhash Chand Sharma | 15.08.1951 |
| 3. | G.P.D. Vyas | 21.03.1950 |
| 4. | V. N. Sharma | 31.07.1950 |

*The name at Sl. No. 1-A has been considered by the Committee under the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 and is included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him by the State Government.

Select List of 2001 :

| S. No. | Name | Date of Birth |
|--------|-------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1-A* | Deep Chand Bairwa | 30.10.1951 |
| 1. | Sunayan Sharma | 03.03.1950 |
| 2. | N. C. Bakolia | 01.09.1949 |
| 3. | O. P. Sharma | 03.07.1947 |

*The name at Sl. No. 1-A has been considered by the Committee under the second proviso to Regulation 5(4)

of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 and is included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him by the State Government.

Select List of 2002 :

| S. No. | Name | Date of Birth |
|--------|-------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1. | M. K. Salvan | 20.11.1948 |
| 1-A* | Deep Chand Bairwa | 30.10.1951 |
| 2. | K. C. Sharma | 31.05.1951 |
| 3. | R. S. Shekhawat | 30.10.1958 |

*The name at Sl. No. 1-A has been considered by the Committee under the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 and is included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him by the State Government.

Select List of 2003 :

| S. No. | Name | Date of Birth |
|--------|-------------------|---------------|
| | (S/Shri) | |
| 1-A* | Deep Chand Bairwa | 30.10.1951 |
| 1. | I. A. Mugal | 30.11.1955 |
| 2. | G. P. Saxena | 17.04.1951 |

*The name at Sl. No. 1-A has been considered by the Committee under the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 and is included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him by the State Government.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 21st October 2003

No. A. 12025/11/2003-CHS. IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Hira Lal to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as specialist Gr.- II (Radio-Diagnosis) at CGHS, Kanpur in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 2nd September 2003 and until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 28th October 2003

No. A. 12025/406/91-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Vijay Yashwant Paradkar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October 1991 until further orders. Dr. Vijay Yashwant Paradkar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Pune with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/90/94-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Jothi Janartha Murthy to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September 1994 until further orders. Dr. (Smt.) Jothi Janartha Murthy is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 29th October 2003.

No. A. 12025/81/99-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shalini Agrawal to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 12th July 2000 until further orders. Dr. Shalini Agrawal is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 30th October 2003

No. A. 38011/1/2003-CHS. I—Consequent upon retirement on attaining the age of superannuation Dr. R.N. Panda of Regularised Cadre of the Central Health Service, holding the post of CMO(NFSG) under Central Government Health Scheme, Delhi relinquished the Charge of the post on 30.06.2003(AN).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 24th October 2003

No. A. 12025/2/2002/Estt. III—The President is pleased to appoint Shri R.C. Kakkar, as Depot Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- in the Department of Family Welfare on transfer on deputation basis with effect from 8th October 2003 (FN) for a period of three years.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 28 October 2003

No. 19011/373/2003-E. V.—The President is pleased to extend the deputation period of Dr. C.R. Hazra in the post of Agriculture Commissioner in the Department of Agriculture & Cooperation beyond 21.3.2003 and upto 27.6.2003 (AN).

K. D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 4th March 2003

No. 4-10/2001-D-II-L—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Rai, Assistant Director (Subject) of CSTT to the post of Deputy Director (Subject), General Central Service Group 'A' gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same office w.e.f. the date he assumes charge of the said post.

HEM CHAND, Under Secy. D. II (L)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 9th October 2003

No. 13028/1/2003-SCD-VI—Consequent upon repatriation, from Ministry of Tribal Affairs Shri P.L. Yadav has been placed as Assistant Director in the joint cadre of Ministry of Social Justice & Empowerment and National Commission for SCs and STs w.e.f. 18.8.2003(FN) until further orders.

DILIP SINGH, Director

New Delhi-1, the 17th October 2003

No. 16011/2/2002-SCD-IV—In pursuance of provisions contained in Article 56(3) of Articles of Association of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the President is pleased to appoint the following on the Board of Directors of the said Corporation as ex-officio Directors for a period of three year or till further orders with immediate effect :—

1. The Managing Director,
Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Ltd.
9th and 10th Floor, Vishveswaraiah Minar Tower,
Dr. Ambedkar Veedhi,
Bangalore-560001.
2. The Managing Director,
Gujarat Scheduled Castes Development Corporation Ltd., Dr. Jivraj Mehta Bhavan,

Block No. 10, II Floor, Sector-10,
Old Sachivalaya
Gandhi Nagar-382010.

3. The Managing Director,
Madhya Pradesh State Co-operative Scheduled
Castes Finance and Development Corporation,
Rajiv Gandhi Bhawan, 35, Shymala Hills,
Bhopal-462002.

4. The Managing Director,
Jharkhand Scheduled Tribes Development
Finance Corporation Ltd.,
Ranchi.

HASIB AHMAD, Director

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 15th October 2003

No. 2-3/2000-Admn. —On the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001 for Section Officers' Grade, the President is pleased to appoint Smt. Sreekala P. Venugopal, Assistant in the cadre of Ministry of Information and Broadcasting as Section Officer in the cadre of Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 29.09.2003.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

No. 2-3/2002-Admn.—Shri Ashim Kumar Roy, Section Officer (ad-hoc) in the cadre of Department of Posts is reverted to his substantive post of Assistant in the same cadre with effect from 29.09.2003 (F/N).

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

The 23rd October 2003

No. 2-3/2000-Admn. —On the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001 for Section Officers' Grade, the President is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar Sinha, Assistant in the cadre of Ministry of Defence as Section Officer in the cadre of Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 15.10.2003.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

No. 2-3/2002-Admn.—Shri Bharat Bhushan, Section Officer (ad-hoc) in the cadre of Department of Posts is reverted to his substantive post of Assistant in the same cadre with effect from 15.10.2003 (F/N).

G. P. PILLAI, Assistant Director General (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 28th October 2003

No. A-19011/3/2003-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 4/26/2003-EO(MM-I) dated 5th September 2003 Ms. Ruchika C. Govil, IRS (IT: 90) has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Tourism & Culture, Department of Culture w.e.f. the forenoon of 09.10.2003.

KRISHAN CHAND GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th October 2003

No. ERB-I/2002/2/37—Ms. Sangeeta Sharma, Research Officer, Economic Unit, Railway Board (Grade Rs. 8,000—13,500), has been promoted to officiate as Senior Research Officer, Economic Unit, Railway Board, on regular basis, in Grade Rs. 10,000—15,200 with effect from 07.10.2003.

R. R. BHANDARI,
Secy. Railway Board &
Ex-officio Addl. Secy.

The 30th October 2003

No. ERB-I/2003/2/63—Shri Shyam Kumar, IRSE, Adviser (Civil Engineering), Railway Board, is appointed as Additional Member (Civil Engineering), Railway Board, in Grade Rs. 24050—26000/- with effect from the afternoon of 08.10.2003.

R. R. BHANDARI, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 29th October 2003

No. A-12028/2/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. Kumar Rakesh Sinha, who does not belong to

any organized service as 1st Personal Assistant to Minister for Shipping (Sh. Shatrughan Sinha) in the pay scale of Rs. 6500—10500 with effect from 1st August 2003 (F.N.) on co-terminus basis or until further orders, whichever is earlier.

S. K. SHAHI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-I, the 26th September 2003

No. 12025/3/98-F(A)—The President is pleased to appoint Shri C. J. Paulose to the post of Joint Chief Producer in Films Division in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- on ad-hoc basis for a period of 6 months with effect from the forenoon of 28th August 2003 or until the revocation of suspension of Shri Bankim Kapadia or until further orders, whichever event occurs earliest.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularisation or seniority in the post of Joint Chief Producer.

K. M. SASIDHARAN, Desk Officer

(DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY)

New Delhi, the 23rd October 2003

No. A-12011/3/98-Admn. I—The Director, Directorate of Advertising & Visual Publicity is pleased to appoint Shri Tushar Ranjan Karmakar as Assistant Production Manager (Outdoor Publicity) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 29.9.2003 in a temporary capacity until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years from 29.9.2003. The period of probation is extendable at the discretion of the appointing authority.

A. K. SAXENA, Dy. Director (Admn.)